



### ओनटैरियो सरकार ने, दूसरी प्रोविंसिअल स्टेट ऑफ एमरजेंसी की घोषणा की

ब्रैम्पटन, ओनटैरियो (13 जनवरी, 2020) – कल, ओनटैरियो सरकार (Government of Ontario) ने, एमरजेंसी मैनेजमेंट एंड सिविल प्रोटेक्शन एक्ट (ई.एम.सी.पी.ए.) (Emergency Management and Civil Protection Act) (EMCPA) के अंतर्गत, दूसरी प्रोविंसिअल एमरजेंसी की घोषणा की है, जो 13 जनवरी को सुबह 12:01 बजे लागू होगी।

14 जनवरी, 2021 को सुबह 12:01 बजे से लागू करते हुए, ओनटैरियो सरकार, हर किसी को घर में रहने का स्टे-एट-होम ऑर्डर जारी कर रही है। इसमें जरूरी उद्देश्यों के लिए कुछ छूटें हैं, जैसे ग्रासरी स्टोर या फार्मसी में जाना, स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं तक पहुंचना, एक्सरसाइज या जरूरी काम के लिए जाना।

इस ऑर्डर तथा अन्य नई और मौजूदा, पब्लिक हेल्थ संबंधी पाबंदियों का उद्देश्य, लोगों के आने-जाने को सीमित करना और सगे पारिवारिक मेम्बर्स के अलावा अन्य लोगों के साथ, रोज़ाना संपर्कों की संख्या को कम करना है। जरूरी कामों के लिए बाहर जाने को सीमित करने के अलावा, सभी कारोबारियों के लिए यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि कोई भी कर्मचारी, जो घर से काम कर सकता है, वह घर से ही काम करे।

पब्लिक हेल्थ संबंधी, निम्नलिखित अतिरिक्त उपाय भी लागू किए जा रहे हैं:

- आउटडोर संगठित सार्वजनिक कार्यक्रम या सामाजिक जनसमूह को, अधिकतम पांच व्यक्तियों तक सीमित किया गया है।
- व्यक्तियों के लिए उन कारोबारों या संगठनों के इनडोर क्षेत्रों में मास्क पहनना या चेहरा ढकना आवश्यक है, जो खुले हैं। अब उस समय आउटडोर मास्क पहनने या चेहरा ढकने की सलाह दी जाती है, जब आप दो मीटर से अधिक की शारीरिक दूरी नहीं रख सकते।
- हार्डवेयर स्टोर्स, अल्कोहल रिटेलर्स और कर्बसाइड पिकअप (पगडंडी के किनारे से वस्तुएं लेना) या डिलीवरी पेश करने वालों सहित, सभी गैर-आवश्यक रिटेल स्टोर, जरूरी तौर पर सुबह 7 बजे से ही खुलने और रात 8 बजे तक बंद हो जाने चाहिए। संचालन के पाबंदी वाले घंटे, मुख्य तौर पर भोजन बेचने वाले स्टोर्स, फार्मसीज, गैस स्टेशनों, कन्वीनिऍंस स्टोर्स और टेकआउट या डिलीवरी के लिए रेस्टोरेंट्स पर लागू नहीं होते।

यह उपाय, मंगलवार, 12 जनवरी, 2021 और वीरवार, 14 जनवरी, 2021 की बीच लागू होंगे, ई.एम.सी.पी.ए. (EMCPA) के अंतर्गत एमरजेंसी की प्रोविंसिअल घोषणा, उस एक्ट के अंतर्गत ऑर्डर और रीओपनिंग ओनटैरियो एक्ट (आर.ओ.ए.) (Reopening Ontario Act) (ROA) के अंतर्गत नियमों में संशोधनों सहित।

दूसरी प्रोविंसिअल एमरजेंसी के बारे में, [यहां \(here\)](#) अधिक पढ़ें।



### नए एन्फोर्समेंट उपाय

प्रोविंसिअल एमरजेंसी की घोषणा के अंतर्गत, प्रांत, ओन्टैरियो प्रोविंसिअल पुलिस (Ontario Provincial Police), लोकल पुलिस फोर्सिज, बाइ-लॉ अफसरों और प्रोविंसिअल वर्कप्लेस इंस्पेक्टरस सहित, सभी एन्फोर्समेंट और प्रोविंसिअल अपराध अफसरों को अथॉरिटी प्रदान करेगा कि वे उन व्यक्तियों को टिकटें जारी करें, जो स्टे-एट-होम-ऑर्डर का पालन नहीं करते, या जो इनडोर जगहों पर मास्क नहीं पहनते या चेहरा नहीं ढकते, साथ ही रिटेल ऑपरेटर्स और कंपनियों को, जो इन उपायों को लागू नहीं करते। जो व्यक्ति ऑर्डर्स का पालन नहीं करेंगे, उन पर आर.ओ.ए. (ROA) और ई.एम.सी.पी.ए. के अंतर्गत, जुर्माना लगेगा और/या मुकदमा होगा।

पाबंदियों का पालन न करने वाले व्यक्तियों पर जुर्माना लगाया/टिकट जारी की जा सकती है। रीओपनिंग ओन्टैरियो एक्ट और सिटी के बाइ-लॉ के अंतर्गत, उल्लंघन के लिए, अपराध के प्रकार के आधार पर, 500 डॉलर से 100,000 डॉलर तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

### आवश्यक चेहरा ढकना

आवश्यक चेहरा ढकना (मैनडेटरी फेस कवरिंग्स) बाइ-लॉ (Mandatory Face Coverings By-law) के अंतर्गत, ब्रैम्पटन में सभी इनडोर सार्वजनिक जगहों पर, गैर-मेडिकल मास्क (कपड़े के बने साधारण मास्क) पहनना या चेहरे को ढकना जरूरी है। सार्वजनिक संस्थानों और कारोबारों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके नियंत्रण वाली इनडोर सार्वजनिक जगहों पर, सभी लोग मास्क पहन रहे हैं या चेहरा ढक रहे हैं।

बाइ-लॉ कुछ व्यक्तियों को छूट देता है। इनमें शामिल हैं, वे व्यक्ति, जो मेडिकल कारणों से मास्क नहीं पहन सकते या चेहरा नहीं ढक सकते; दो वर्ष से कम उम्र के बच्चे; एमरजेंसी ऑर्डर्स (Emergency Orders) के अनुसार एथलेटिक गतिविधि में शामिल व्यक्ति। अधिक जानकारी के लिए: [www.brampton.ca/masks](http://www.brampton.ca/masks) पर जाएं।

### सिटी की सेवाएं और फैसिलिटीज

#### सिटी हॉल और कार्पोरेट फैसिलिटीज

सिटी हॉल और कार्पोरेट फैसिलिटीज, केवल मुलाकात बुक करने के द्वारा ही, व्यक्तिगत सेवाओं के लिए खुली रहेंगी। बिना मुलाकात बुक किए आने की अनुमति नहीं है। मुलाकात बुक करने के लिए, [www.brampton.ca/skiptheline](http://www.brampton.ca/skiptheline) पर जाएं।

#### सिटी रेक्रिएशन सेंटर और सहूलियतें

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन की सभी रेक्रिएशन फैसिलिटीज, जनता के लिए बंद रहेंगी। फिट और क्रियाशील रहने के बारे में, ऑनलाइन वीडियो के लिए, [यहां क्लिक करें \(click here\)](#)।

यदि मौसम ठीक रहा, तो स्वस्थ, सुरक्षित और क्रियाशील रहने में निवासियों की मदद के लिए, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन के आउटडोर आइस रिंक्स खुले रहेंगे। संचालन के घंटों के बारे में, [www.brampton.ca/outdoorskating](http://www.brampton.ca/outdoorskating) पर पता लगाया जा सकता है।

समुदाय का स्वास्थ्य और सुरक्षा, सिटी की सबसे बड़ी प्राथमिकता है, विशेषकर कोविड-19 (COVID-19) के दौरान। पील पब्लिक हेल्थ



की सलाह के अनुसार, रिंक्स में जाने के लिए रिजर्वेशन सिस्टम स्थापित किया गया है। ऐसा यह सुनिश्चित करने के लिए है कि कैपेसिटी शर्तों का पालन किया जा रहा है और जहां जरूरी हो, संपर्क ट्रेसिंग संभव है। आउटडोर प्रोग्रामिंग समायोजनों के बारे में ताज़ा जानकारी, [www.brampton.ca/recreation](http://www.brampton.ca/recreation) पर देखी जा सकती है।

अधिक जानकारी और सेवा अनुरोधों के लिए, निवासी और कारोबारी 311 पर फोन कर सकते हैं, [www.311brampton.ca](http://www.311brampton.ca) पर जा सकते हैं या 311 मोबाइल ऐप का प्रयोग कर सकते हैं।

### लिंक

- [सिटी ऑफ ब्रैम्पटन कोविड-19 प्रोग्रामिंग और सेवा अपडेट \(City of Brampton COVID-19 programming and service updates\)](#)
- [सिटी ऑफ ब्रैम्पटन – क्या खुला है, क्या बंद है \(City of Brampton – what's open, what's closed\)](#)
- [कोविड-19 के लक्षण \(COVID-19 Symptoms\)](#)
- [ब्रैम्पटन में टेस्टिंग \(Testing in Brampton\)](#)
- [खुद को दूसरों से अलग कैसे रखना है \(How to self-isolate\)](#)
- [कोविड-19 के दौरान कारोबारों और कार्यस्थलों को सुरक्षित रखना \(Keeping businesses and workplaces safe during COVID-19\)](#)
- [पील में कोविड-19 के केस \(Cases of COVID-19 in Peel\)](#)

-30-

### मीडिया संपर्क

मोनिका दुग्गल (Monika Duggal)

कोऑर्डिनेटर, मीडिया एंड कम्युनिटी एन्गेजमेंट

स्ट्रैटजिक कम्युनिकेशन

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

905-874-3426 | [Monika.Duggal@brampton.ca](mailto:Monika.Duggal@brampton.ca)